



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 390]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 3, 1982/भाद्र 12, 1904

No. 390]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 1982/BHADRA 12, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1982

का. आ. 645(ई) :—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 678 (अ) तारीख 3 सितम्बर, 1981 के साथ पठित भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 511(अ), तारीख 4 सितम्बर, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा इण्डियन हेल्थ इंस्टीट्यूट एण्ड लेबोरेट्री, कलकत्ता नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उक्त आदेश में निर्दिष्ट प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा 2 सितम्बर, 1982 तक की (जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है) अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की

668 GI/82

उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश, 3 सितम्बर, 1982 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे और उसका निम्नलिखित संशोधन किया जाए :—

उक्त आदेश में, जहां कहीं भी “दो वर्ष” शब्द आते हैं, उनके स्थान पर “चार वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 2(22)/80-सो. य. एस.]

चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 3rd September, 1982

S.O. 645(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 511(E), dated the 4th September, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), read with the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 678(E), dated the 3rd September, 1981, the management of the whole of the industrial undertaking known as the Indian Health Institute and Laboratory Limited, Calcutta, had been

taken over by the Authorised Person referred to in the said Order, for a period upto and inclusive of the 3rd September, 1982;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order shall continue to have effect for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the

Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of one year upto and inclusive of the 3rd September, 1983 and shall be amended as follows :—

In the said Order, for the words "two years" wherever they occur, the words "four years" shall be substituted.

[F. No. 2(22)/80-CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy.